

FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..सीपीएसजयपुर Year(वर्ष).2022..FIR No.(प्रसूरिसं).....Date(दिनांक) 91/22 16.03.22

2. (i) Act (अधिनियम)..भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराएँ) 7.....

(ii) Act (अधिनियम)..... Sections (धाराएँ).....

(iii) Act (अधिनियम)..... Sections (धाराएँ).....

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराएँ)

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का) Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 15.3.2022 to (दिनांक तक) Time Period (पहर)4.00 PM....Time From(बजे से)Time to(बजे तक) (b)(ख) Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना)Date (दिनांक) Time(समय). (c)(ग) General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ) ..Entry No(प्रविष्टि संख्या) 325 Time(समय) 4.15 PM

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित / मौखिक)लिखित.....

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का व्योरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 55 KM दक्षिण—पूर्व .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) .. हॉटल खाना खजाना झुन्झुनू

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस) Name of PS (थाने का नाम) District (जिला)

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता / इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम)श्री श्याम सिंह.....

(b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम) ... श्री बजरंग सिंह राजपूत.....

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)...36 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ङ) Passport No (पासपोर्ट संख्या)

date of Issue (जारी करने की तिथि) Place of Issue (जारी करने का स्थान)

(f)(च) Occupation (व्यवसाय) .. हॉटल व्यवसाय

(g)(छ) Address (पता) नया बास चूरू।

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नथी करें)

- श्री संदीप कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी गुडान तहसील राजगढ़ जिला चूरू हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).....शून्य.....
9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नहीं करें)
10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य) ..Trap Rs 25,000
11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो)
12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नहीं करें) सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो

चूरू

विषय:- श्री संदीप कुमार निरीक्षक ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में।

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री बजरंग सिंह राठौड़ के नाम से चूरू शहर में पुराने बस स्टैण्ड के पास राठौड़ लॉज एण्ड रेस्टोरेंट है। इसमें सारा काम मैं ही सम्भालता हूँ। दिनांक 11.03.2022 को ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू के श्री संदीप निरीक्षक मेरे पास लॉज में आया तथा लॉज का विजिट किया और कार्यरत कर्मचारियों का लॉज में संधारित समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया व मेरे से बातचित की। संदीप कुमार ने कहा कि आपका हॉटल काफी पुराना है, कर्मचारी भी कार्यरत है। कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन में बीमा नहीं किया जा रहा है आपको पैनल्टी सहित करीब 20 लाख रुपये जमा कराने होंगे। मैंने कहा हॉटल में 8-10 कर्मचारियों का स्टाफ है जो सीजन के अनुसार कम-ज्यादा करते रहते हैं। इस पर संदीप जी ने कहा कि 35,000रु. मुझे खर्च के दे देना मैं पीछे के वर्षों का रिकॉर्ड सही कर दूंगा तथा अप्रैल 2022 से हमारे विभाग का चूरू में कार्यालय खुल जायेगा तथा मैं ही यहाँ ईन्चार्ज रहुगां। इसलिए आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री संदीप कुमार निरीक्षक ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू मेरे से नाजायज 35,000रु. रिश्वत के मांग रहा है मैं उसे रिश्वत न देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांक 14.03.2022

प्रार्थी

(एसडी)

श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह
निवासी नया बास चूरू
मो०८० 9352894681

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 14.03.2022 को वक्त 4.45 पीएम पर श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी नया बास चूरू ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मजीद पुछताछ प्र कर्मचारी श्री श्याम सिंह ने बताया कि चूरू शहर में पुराने बस स्टैण्ड के पास राठौड़ लॉज एण्ड रेस्टोरेंट नाम से मेरे पिताजी ने हॉटल कर रखा है। इस हॉटल को मैं ही सम्भालता हूँ। दिनांक 11.03.2022 को श्री संदीप जी इन्सपेक्टर ईएसआईसी श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू मेरे पास हॉटल में आये व हॉटल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी रिकॉर्ड देखा और कहा कि ईएसआईसी चूरू में वर्ष 2016 से लागू हो गई है। आपका हॉटल काफी पुराना है तथा कर्मचारी भी ज्यादा है। आपके 2016 से कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी वसूली निकलेगी। मैंने कहा कि हॉटल में ज्यादातर 8-10 कर्मचारी रहते हैं तथा सीजन के हिसाब से कर्मचारी कम ज्यादा भी करते रहते हैं। संदीप कुमार इन्सपेक्टर ने इस सम्बन्ध में मेरे से काफी वार्ता की तथा कहा कि आपके वसूली तो निकलेगी तथा आगे भी कार्यरत कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी कार्य होगा तथा संदीप जी ने अपने मोबाइल के क्लैक्यूलेटर में 35000 रुपये लिखकर मेरे को दिखाया व कहा कि इतना खर्च मेरे को दे देना मैं आपका पीछे

वाला सारा हिसाब सही करवा दूंगा। हमारा कार्यालय चूरु में भी खुलने वाला है उसमें मैं ही इंचार्ज रहूंगा इसलिए भविष्य में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। इस पर मैंने कहा कि मैं मेरे बड़े भाई एवं पिताजी से वार्ता कर आपसे बात करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे होटल में कर्मचारी कम है, कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। संदीप जी इंस्पेक्टर मेरे से कर्मचारियों के बीमा के सम्बन्ध में नाजायज 3,5000 रुपये रिश्वत के मांग रहे हैं, जिसे मैं नहीं देना चाहता। मैं उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी संदीप जी से कोई जान पहचान नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन-देन बकाया है, उक्त रिपोर्ट पेश करता हूँ जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी श्याम सिंह की रिपोर्ट एवं मजीद दरयाफ़त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी श्याम सिंह को रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैं कल सुबह झुन्झुनू जाकर संदीप जी से रिश्वत के सम्बंध में वार्ता कर सकता हूँ। जिस पर परिवादी श्याम सिंह को दिनांक 15.03.22 को सुबह चौकी आने का निर्देश देकर रुखस्त किया गया।

दिनांक 15.03.2020 को वक्त 8.30 एम पर परिवादी श्री श्याम सिंह हाजिर चौकी आया। श्री दीपेश कुमार कानि व परिवादी का आपस में परिचय करवाकर परिवादी श्याम सिंह को सरकारी वॉईस रिकॉर्डर ऑपरेट करने की विधी समझाकर सुपुर्द किया गया एवं कानि दीपेश कुमार के साथ रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये परिवादी के वाहन से रवाना झुन्झुनू किया गया। वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी श्याम सिंह व कानि दीपेश कुमार हाजिर चौकी आये व परिवादी ने बताया कि झुन्झुनू पंहुच आरोपी संदीप कुमार से पीरुसिंह सर्किल स्थित हॉटल खाना खजाना में मेरी वार्ता हुई जिसमें आरोपी ने मेरे से 30,000रु. रिश्वत के मांगे परन्तु मेरे द्वारा 25,000रु. की कहने पर वह 25,000रु. रिश्वत के लेने के लिए सहमत हो गया है। मेरी व संदीप कुमार की पैसे व कार्य के सम्बंध में हुई वार्ता को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को जरिये कम्प्यूटर सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से 25,000रु. रिश्वत की मांग करना स्पष्ट पाया गया। चुंकि आरोपी ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर आज ही 3-4 बजे तक झुन्झुनू बुलाया है तथा ट्रेप का आयोजन कर झुन्झुनू पंहुचने में समय लगेगा इसलिए मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। रिकॉर्ड वार्ता का वॉईस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्याम सिंह निर्देशानुसार रिश्वत में दिये जाने वाले 25,000 रुपये साथ लाया है।

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, चूरु से दो सरकारी कर्मचारी श्री एस. आर. मेघवाल एसीटीओ व श्री निखिल कुमार कनिष्ठ सहायक तलविदा हाजिर चौकी आये। आमदा दोनों सरकारी कर्मचारियों का परिवादी श्री श्याम सिंह द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनों गवाहान ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनों गवाहों का परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनों गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया। रुबरु गवाहान परिवादी श्री श्याम सिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले पच्चीस रुपये भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1	एक नोट दो हजार रुपये का नोट नम्बर	1 CU 988691
2	----	2CM 305512
3	----	8BL 015686
4	----	4MK 629846
5	----	0FT 407325
6	----	2AD 609447
7	----	2GB 174424
8	----	5GG 342493
9	----	7AB 644775
10	एक नोट पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9SK 892283
11	----	5HV 307328
12	----	6SB 693848
13	----	0NK 016945
14	----	0KS 007072
15	----	7LQ 000720
16	----	4DQ 630751

17	-----;;-----	5VG 704619
18	-----;;-----	0CV 414778
19	-----;;-----	7DW 521490
20	-----;;-----	8BQ 706420
21	-----;;-----	2EH 430710
22	-----;;-----	8HP 628043
23	-----;;-----	INB 976442

उपरोक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाकर श्री बसन्त सिंह कानि. 164 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री श्याम सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री निखिल कुमार से लिवायी जाकर रिश्वती राशि को परिवादी श्याम सिंह के पहनी पेन्ट की साईड की दाहीनी जेब में श्री बसन्त सिंह कानि. से रखवाई गई। परिवादी श्याम सिंह को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बंध में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करें। परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। परिवादी श्याम सिंह को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सुपूर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेसकसी व सुपुदर्गी नोट अलग से तैयार की गई। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सुरक्षित रखवाई गई, रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी का उसका मोबाइल सुपूर्द किया गया।

समय 02.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्याम सिंह दोनों गवाह श्री एस.आर. मेघवाल व निखिल कुमार तथा चूरु चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., नरेन्द्र सिंह हैड कानि, ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, रीपेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन सं0 आरजे 10 यूए 6236 मय चालक बजरंग लाल एवं परिवादी श्याम सिंह के निजी वाहन स्कॉर्पियो से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरु से रवाना झुन्झुनू के लिए हुआ। श्री बसन्त सिंह कानि को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोड़ा गया।

समय 3.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्याम सिंह, दोनों गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहन के झुन्झुनू में केन्द्रीय विद्यालय के पास पहुंचा। परिवादी श्याम सिंह द्वारा आरोपी से जरिये मोबाइल सम्पर्क किया तो आरोपी ने कहा कि अभी मैं मिटिंग में हूँ, 15-20 मिनट बाद मिटिंग से फी होकर आपको फोन कर दुंगा। थोड़ी देर बाद परिवादी श्याम सिंह के पास आरोपी संदीप कुमार का फोन आया व उसने कहा कि मैं मिटिंग से फी हो गया हूँ, आप मेरे कार्यालय के पास हॉटल खाना खजाना के आगे मेरे को मिल जाना। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के दोनों वाहनों से रवाना होकर पीरुसिंह सर्किल झुन्झुनू के पास हॉटल खाना खजाना के पास पहुंचे। परिवादी श्याम सिंह को आवश्यक निर्देश देकर आरोपी संदीप कुमार से सम्पर्क करने हॉटल खाना खजाना के लिए रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ते के हॉटल के आगे काफी तादाद में खड़े एवं बैठे व्यक्तियों के पास इधर-उधर खड़े होकर हॉटल के अन्दर एक व्यक्ति के साथ गये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। मैं उप अधीक्षक पुलिस हॉटल के मुख्य द्वार के अन्दर बने कांउटर के पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ।

समय 4.00 पीएम पर परिवादी श्याम सिंह ने होटल खाना खजाना में मुख्य गेट पर खड़े मन् उप अधीक्षक पुलिस को सामने हॉल में से रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने सीर पर हाथ फेर कर करने पर मैं उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान मय ट्रेप दल के होटल के अन्दर परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी श्याम सिंह ने अपने पास कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं संदीप जी ईएसआईसी के अधिकारी है जिन्होंने अभी-अभी मेरे से यंहा बैठे ही पूर्व की वार्ता अनुसार रिश्वत राशि मांगी तो मैंने 25,000 रुपये अपनी जेब से निकाल कर इनको दिये, इन्होंने मेरे से रुपये अपने दाहीने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी पेंट की साईड की दाहीनी जेब में रख लिये व कहा कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब मैं आपका सारा काम सेट कर दूंगा। इस पर परिवादी श्याम सिंह से रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता का ट्रेप रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये गये उस व्यक्ति को मन् उप पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो वह व्यक्ति


एकदम से घबरा गया व अपना नाम संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू होना बताया। संदीप कुमार को परिवादी श्याम सिंह से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो संदीप कुमार कुछ नहीं बोला व इधर-उधर देखने लगा, पुनः तसल्ली से पुछा तो संदीप कुमार ने बताया मैं श्याम सिंह को जानता हूँ यह मेरे परिचित है। मैं दिनांक 11.03.2022 को बिसाउ में किसी फर्म का निरीक्षण करने गया था। निरीक्षण उपरान्त चूरु शहर स्थित भविष्य में खुलने वाले हमारे कार्यालय के लिये बीएसएनएल के सामने मकान देखा। तत्पश्चात मैं रास्ते पर स्थित राठौड़ लॉज चूरु के निरीक्षण के लिये गया था। उस दिन श्याम सिंह ने अपनी आवश्यकता के लिये मेरे से 50000 रुपये उधार लिये थे। जिनको एक दो दिन में वापिस देने के लिये कहा था। आज श्याम सिंह सुबह भी मेरे से इसी होटल में मिला था तथा अभी आकर मुझे 25000 रुपये दिये हैं जो मेरे पास पेंट की जेब में है। श्याम सिंह को उधार दिये पैसे की मेरे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है। आज दिनांक 15.03.22 तक हमारे कार्यालय से राठौड़ लॉज एण्ड रेस्टोरेन्ट चूरु के नाम से कर्मचारियों के बीमा सम्बन्धी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा ना ही कोई पत्राचार किया गया है। इस पर हाजिर परिवादी श्याम सिंह ने बताया कि संदीप जी सरासर झुठ बोल रहे हैं। यह मेरे कोई परिचित नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, दिनांक 11.03.2022 को पहली बार संदीप जी चूरु मेरे पास होटल में आये थे व होटल का निरीक्षण एवं होटल में कार्यरत कर्मचारियों की हाजरी एवं वेतन सम्बन्धी रिकार्ड का अवलोकन किया व कहा कि आपका होटल काफी पुराना है, कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी आपकी काफी वसूली निकलेगी। मैंने कहा 8-10 कर्मचारी हमारी होटल में हैं जिनको सीजन के अनुसार कम ज्यादा भी करते रहते हैं। इस पर संदीप जी ने अपने मोबाईल के केलकूलेटर में 35000 हजार रुपये लिखकर मेरी तरफ दिखाया व कहा कि इतना खर्चा दे देना, मैं आपका सारा काम सही कर दूँगा। आज दिनांक 15.03.22 को करीब 10 बजे मैं इनसे होटल खाना खजाना में मिला तो इन्होंने मेरे से पहले 30000 हजार रुपये मांगे व बाद में मेरे द्वारा 25000 की कहने पर लेने के लिये सहमत हो गये तथा कहा कि आज ही देकर जाना। यह 25000 रुपये मैंने इनको मेरे होटल में कर्मचारियों के बीमा सम्बन्धी कोई कार्यवाही एवं वसूली नहीं करने की एवज में संदीप जी द्वारा रिश्वत के मांगने पर दिये हैं। आरोपी संदीप कुमार के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी संदीप कुमार का दायां व बांया हाथ कमशः ओमप्रकाश व दीपेश कुमार कानिगण ने कलाईयों से पकड़ लिया। उक्त पूछताछ होने तक होटल खाना खजाना में ग्राहकों एवं अन्यों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई इसलिए सुरक्षित कार्यवाही करने के लिये आरोपी संदीप कुमार के दोनों हाथ पकड़े पकड़े बाहर गाड़ी में बैठाकर पास ही स्थित सानिवि डाक बंगला पहुँच आगे की कार्यवाही शुरू की गई। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में साफ कांच के दो गिलासों में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमच्व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर धोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के धोल में आरोपी श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दोनों गवाहान ने गुलाबी रंग बताया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन धोल में आरोपी संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के बायें हाथ की अंगूलियों को ही डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, गिलास के इस मिश्रण को दोनों गवाहान ने गुलाबी रंग बताया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी श्री संदीप कुमार के पहनी पेंट की जेबों की तलाशी एस.आर. मेघवाल से लिवाई गई तो पेंट की साईड की दाहीनी जेब में दो-दो हजार व पांच-पांच सौ रुपये के नोट मिले। जिनको गवाह ने गिनकर 25000 रुपये बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटों के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों गवाहों से करवाया गया तो नोटों के नम्बर वहीं पाये गये। उक्त कार्यवाही के पश्चात कम्प्यूटर संचालन के लिए डाक बंगला में सुबह से लाईट नहीं होने के कारण आगे की कार्यवाही के लिये पास ही स्थित एसीबी कार्यालय झुन्झुनू पहुँच कार्यवाही शुरू की गई। आरोपी से बरामद रिश्वती राशि के नोटों का विवरण फर्द में अंकित कर उपरोक्त 25,000 रुपयों के नोटों को खुले कपड़े में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी श्री संदीप कुमार के लिए एक लोवर की व्यवस्था करवाकर इनके पहनी पेंट बरंग नीली को उत्तरवाकर इसके साईड

की दाहिनी जेब को उलटवाकर प्रक्रियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में धुलवायी गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री संदीप कुमार की उक्त पेंट की जेब को सुखाकर उक्त पेंट को सील्ड कर वास्ते वजह सबूत जप्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना सील जरिये फर्द अलग से लिया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नकशा मौका व हालात मौका अलग से जरिये फर्द तैयार किया गया। आरोपी श्री संदीप कुमार को बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादी श्याम सिंह व आरोपी संदीप कुमार के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो परिवादी ने ट्रेप में रिकॉर्ड की है, उस वार्ता को जरिये लैपटॉप सुन-सुन कर फर्द ट्रास्किप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न कर उप अधीक्षक पुलिस, दोनों गवाहान, परिवादी व जाप्ता तथा गिरफतार आरोपी श्री संदीप कुमार व ट्रेप कार्यवाही में जप्त सम्बंधित वजह सबूत हमराह लेकर जरिये दोनों प्राईवेट वाहन के झुन्झुनू से रवाना होकर चौकी चूरू पहुंचे। परिवादी श्याम सिंह व आरोपी संदीप कुमार के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन में हुई वार्ता जो परिवादी ने ट्रेप में रिकॉर्ड की है, उस वार्ता को जरिये कम्प्यूटर सुन-सुन कर फर्द ट्रास्किप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-14 को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। ट्रेप में जप्त वजह सबूत पच्चीस हजार रुपये रिश्वती राशि सील्ड, धोवन की छः सील्ड शिशियां, मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता की सील्ड व खुली सीडियां तथा पेन्ट पकैट दुरस्त सउनि श्री गिरधारी सिंह को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का पृथक से एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह निवासी चूरू के चूरू शहर स्थित उसके हॉटल राठौड़ लॉज एवं रेस्टोरेंट का आरोपी श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू द्वारा दिनांक 11.03.2022 को निरीक्षण किया गया तथा हॉटल में कार्यरत कर्मचारियों की उपरिथिति एवं वेतन सम्बंधी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। आरोपी संदीप कुमार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर हॉटल में कार्यरत कर्मचारियों के बीमां सम्बंधी कटौति नहीं करने पर परिवादी श्याम सिंह को पूर्व की वसूली राशि निकालने एवं भविष्य में उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने की एज में पच्चीस हजार रुपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 15.03.2022 को अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न परिवादी से 25,000रुपये रिश्वत के झुन्झुनू शहर स्थित होटल खाना खजाना में प्राप्त किये। श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू का उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू के विरुद्ध धारा 7 भ्र0नि0 (संशोधन 2018) अधिनियम में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।


 (शब्दीर खान)
 उप अधीक्षक पुलिस,
 भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्दीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री जयलाल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, शाखा झुन्झुनूं के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 91/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

१६.३.२२
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 809-13 दिनांक 16.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार सीआईजी मार्ग नई दिल्ली।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

१६.३.२२
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।